



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2005/माघ 27, 1926

No. 64]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2005/MAGHA 27, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2005

सं. 10/2005-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 77(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 12 अक्टूबर, 2004 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/8/2004-डीजीएडी द्वारा हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड से आयातित पालिस्टीन पर अधिसूचना सं. 158/2000-सीमाशुल्क, तारीख 27 दिसम्बर, 2000 [सा. का. नि. 939(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2000] द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के चालू रहने के मामले में पुनर्विलोकन शुरू कर दिया है और पुनर्विलोकन अन्वेषणों के परिणामों के लम्बित रहने तक, 12 अक्टूबर, 2005 तक प्रतिपाटन शुल्क के विस्तार के लिए अनुरोध किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (8) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (5) तथा (6) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण की क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18, 20 और 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 158/2000-सीमाशुल्क, तारीख 27 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3. यह अधिसूचना 12 अक्टूबर, 2005 तक प्रवृत्त रहेगी जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है।”

[पत्र. सं. 336/7/2000-टीआरयू]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2005

No. 10/2005-CUSTOMS

G.S.R. 77(E).—Whereas, the designated authority vide notification No. 14/8/2004-LGAD, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 12th October, 2004, has initiated sunset review in the matter of continuation of anti-dumping duty on Polystyrene, falling under Chapter 39 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from Hong Kong, Singapore and Thailand, imposed vide notification No. 158/2000-Customs, dated 27th December, 2000 [G.S.R. 939(E), dated the 27th December, 2000] and has requested for suitable extension of anti-dumping duty, pending the results of the review investigations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (8) of Section 9A, read with the second proviso to Sub-section (5) and Sub-section (6) of that section of the said Customs Tariff Act and rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 158/2000-Customs, dated 27th December, 2000, namely :—

In the said notification, after Paragraph 2, the following Paragraph will be inserted, namely :—

“3. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective up to and inclusive of the 12th day of October, 2005.”

[F. No. 336/7/2000-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.